



श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने आज कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यदि श्रीनगर में रैली आयोजित करना चाहते हैं तो उन्हें रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

यह पूछने पर कि क्या श्रीनगर में भाजपा नेता के रैली करने की मंजूरी दी जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा, “ (श्रीनगर में मोदी के) अनुमति देने का सवाल ही कहां पैदा होता है?”

उन्होंने कहा, “ कृपया आइए यदि यहां आपकी पार्टी (भाजपा) की इकाई है और आप 500 लोगों के संबोधित करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। उन्हें (भाजपा के) राजनीतिक गतिविधियां करने से कोई नहीं रोक रहा। ”

उमर ने कहा, “ हम अलगाववादियों के (भी) राजनीतिक गतिविधियां करने से नहीं रोकते। मोदी के रोकने का सवाल ही नहीं है। ”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भाजपा नेताओं के पूर्व में इस वर्ष राज्य में प्रवेश करने से इसलिए रोक गया था क्योंकि कश्तवा दंगों के बाद हालात और खराब होने की आशंका थी।

उन्होंने कहा, “ राजनीतिक गतिविधि के कोई नहीं रोकेंगे। ”

उमर ने कहा कि उन्हें मोदी या अन्य नेताओं के लिए रैली में कुछ नया कहने की उम्मीद नहीं है।

उन्होंने कहा, “ हम भाजपा की राजनीति से परिचित हैं। हम राज्य के प्रति उनके रूख और कश्तवा दंगों के बाद जम्मू साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की केशिशों से अनजान नहीं हैं। ”

उमर ने कहा, “ हालांकि इस बात की आशंका है कि कुछ कि वे शब्द बोले जाएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दौरान नरेंद्र मोदी या उनके सहयोगी ऐसा कुछ बोलेंगे जो हमने पहले नहीं सुना। ”

भाजपा रैली परसिर केनक्ठि उमर क होर्डगि लगा जाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, “ होर्डगि जानबूझकर लगा ग है ऐसी चीजें गलती से नहीं की जाती यह मेरा राज्य है मैं इस राज्य क रहने वाला हूं यदि मैं कोई होर्डगि लगाना चाहता हूं तो मैं लगाऊंगा इस बात पर इतनी परेशानी क्यों है?”

उन्होंने कहा, “ मेरे राज्य में मोदी के 100 होर्डगि है लेकिन मैं इससे परेशान नहीं हूं मैं इस परेशानी के तब समझता जब मैंने गुजरात सचिवालय के बाहर होर्डगि लगाया होता इसमें इतना रोने की कोई बात नहीं है ”

(भाषा)